

A2Z INFRA ENGINEERING LIMITED

CIN No.: L74999HR2002PLC034805



REF. No.: A2ZINFRA/SE/2025-26/035

BY E-FILING

November 27, 2025

To,
BSE Limited
PhirozeJeejeebhoy Towers
Rotunda Building, Dalal Street,
Mumbai-400 001

Fax-022-22722039

BSE Code-533292

To,
National Stock Exchange of India Limited
Listing Department
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1 G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400051
Fax- 022-26598237/38

NSE Code-A2ZINFRA

Dear Sir,

Sub: Newspaper Advertisement regarding opening of Special Window for re-lodgement of transfer requests of physical shares

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copies of the advertisement published in the Business Standard Newspaper on Thursday, November 27, 2025 in English & Hindi editions, intimating shareholders regarding opening of Special Window for re-lodgement of transfer requests of physical shares in accordance with SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025.

The above information is also available on the Company's website at www.a2zgroup.co.in.

Kindly take the above information in your records.

Thanking you,

Yours Truly

FOR A2Z INFRA ENGINEERING LTD.



Atul K. Agarwal
Company Secretary
FCS-6453

Add: - Ground Floor, Plot No. 58,
Sector-44, Gurugram-122003, Haryana

Encl.: As above

Google Meet users report major disruption in India

RIMJHIM SINGH
New Delhi, 26 November

Google Meet users across India experienced a major disruption on Wednesday, with thousands reporting problems while trying to access the platform. Data from *DownDetector.in* showed a sudden surge in outage reports, crossing nearly 2,000 complaints within a short period.

According to *DownDetector.in*, 66 per cent of users flagged website-related glitches during the outage. Another 32 per cent struggled with server connection issues, while 2 per cent reported poor video quality.

The disruption affected several major cities, with large clusters of outages seen in Delhi, Mumbai, Bengaluru, Kolkata, Chennai and Ahmedabad. Many people attempting to join meetings said they



were greeted with the message, "502. That's an error". Users shared screenshots on X and expressed frustration as the problem spread across the country.

As the platform went down, users took to X to share their experiences. One user wrote, "google meet crashed before my will to work did". Another posted, "Google meet is down for everyone in my org but not for me." A third user asked, "Google meet is down!! Why every big tech is going down this month?"

Daughter-in-law of pan masala baron allegedly dies by suicide

A 40-year-old daughter-in-law of Kamla Pasand pan masala company owner died allegedly by suicide at her south Delhi residence, police said on Wednesday.

The deceased, Deepti Chaurasia, married since 2010, was found dead in her house by her husband on Tuesday, who immediately informed the family members and police, they said. According to the police, the husband rushed her to the Safdarjung hospital, where doctors declared her dead on arrival. Police said the couple had been living in two separate houses due to ongoing disputes. Rajender Singh, family lawyer of the company owner Kamal Kishor Chaurasia, said that the allegations of marital discord are "baseless".

PTI

Ace International raises ₹305 cr to build new unit

PEERZADA ABRAR
Bengaluru, 26 November

Ace International Ltd has raised ₹305 crore from Dutch entrepreneurial development bank FMO, Swiss investment firm responsAbility, Belgium-based investment firm Incofin, and Fiedlin Ventures. The capital will support the establishment of a greenfield, fully integrated nutrition facility and complex in Andhra Pradesh. The Kuppam facility will pioneer cutting-edge dairy nutrition processing

Arctus Aerospace nets \$2.6 mn in pre-seed round

UDISHA SRIVASTAV
New Delhi, 26 November

Deep-tech startup Arctus Aerospace on Wednesday said it has raised \$2.6 million in a pre-seed round from Version One Ventures, South Park Commons, gradCapital, and some angel investors, including Balaji Srinivasan, Srinivas Narayan, early Ather engineers, and leaders from Bounce Infinity and Boom Supersonic. The firm is building large, unmanned aircraft capable of flying at 45,000 feet for up to 24 hours. It can carry a



A2Z INFRA ENGINEERING LTD.

CIN: L74999HR2002PLC034805
Regd. Off.: O-116, First Floor, Shopping Mall,
Arjun Marg, DLF City, Phase 1, Gurugram-122002, Haryana
Corporate Office: Ground Floor, Plot No. 58, Sector-44, Gurugram-122003, Haryana,
Tel.: 0124-4723383

E-mail: investor.relations@a2zemail.com, Website: www.a2zgroup.co.in

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGE MENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, the Company is pleased to offer one-time special window for physical shareholders to submit re-lodgement requests for the transfer of shares. The Special Window is open from July 7, 2025 to January 6, 2026 and is applicable to cases where original share transfer requests were lodged prior to April 1, 2019 and were returned/unattended or rejected due to deficiencies in documentation, process or any other reason. The shares re-lodged for transfer will be processed only in dematerialized form during this window. Eligible shareholders may submit their transfer requests along with the requisite documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at Alankit Assignments Limited, Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi- 110055.

By Order of the Board
For A2Z INFRA ENGINEERING LIMITED

Sd/-
Atul K. Agarwal
Place: Gurugram
Date: November 26, 2025 Company Secretary cum Compliance Officer



RANE HOLDINGS LIMITED

CIN: L35999TN1936PLC002202
"Maithri", No. 132, Cathedral Road, Chennai - 600 086
www.ranegroup.com; e-mail: investorservices@ranegroup.com;
Tel.: 044 28112472 / 73

NOTICE OF COMPULSORY TRANSFER OF EQUITY SHARES TO IEPF

NOTICE is hereby given pursuant to the provisions of Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") that, the Company is required to transfer by way of transmission all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholder for seven consecutive years or more to the Investor Education and Protection Fund Authority (IEPF) regarding the interim dividend for the FY 2018-2019.

Complying with requirements set out in the Rules, individual communications are being sent to the concerned shareholders whose dividend remain unclaimed and shares are due for transfer and details of such shareholders along with number of shares. These details are also available on the website www.ranegroup.com. Shareholders are requested to verify and make an application before **March 15, 2026** to the Company / Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) at a below mentioned address to enable processing of claims, M/s. Integrated Registry Management Services Private Limited (SEBI Registration No. INR000000544), II Floor, Kences Towers, No. 1 Ramakrishna Street, T Nagar, Chennai - 600 017, Tel - 044 - 28140801 - 03, e-mail: einward@integratedindia.in.

The unpaid / unclaimed dividend for the interim dividend for the FY 2018-19 and corresponding shares will be liable to transfer to IEPF after **March 15, 2026** and the company shall proceed to initiate corporate action for transfer of shares to the IEPF Authority in respect of such shares without any further notice by following the due process in the rules as under:

- 1) Shares held in demat mode: by way of corporate action to demat account of the IEPF Authority;
- 2) Shares held in physical mode: by issuance of new share certificates and thereafter converting them into demat and transferring to the IEPF Authority by way of corporate action. The original share certificate shall stand automatically cancelled and non-negotiable.

The shareholders may note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed to be an adequate notice in respect of issue of new share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to the IEPF Authority pursuant to the Rules. No Claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said Rules. Both the unclaimed dividend and corresponding shares transferred to the account of the IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from the IEPF Authority after following the procedure prescribed in the Rules.

Shareholders whose dividend/shares have been transferred to IEPF can claim the dividend and/or shares by submitting an online application electronically (web form IEPF-5) available on website of the Ministry of Corporate Affairs at www.mca.gov.in and sending physical copy of the same, duly signed, to the attention of the Nodal Officer/Deputy Nodal Officer at "Maithri", No.132, Cathedral Road, Chennai - 600 086, along with the e-form IEPF-5 acknowledgement/ challan and requisite documents enumerated.

Shareholders having any queries on the subject matter, may contact the Company's Registrar and Transfer Agent.

For Rane Holdings Limited

